



# Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

## **Morning Session**

Q1. निम्नलिखित का सही विलोम शब्द बताईये:

ज्येष्ठ

- A. निरक्षर  
B. कनिष्ठ  
C. प्रक्षेपास्त्र  
D. किर्ति

Q2. निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताईये:

अमृत

- A. बरसात  
B. अमिय  
C. बयार  
D. मेह

Q3. निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताईये:

पाषाण

- A. पीयुष  
B. पत्थर  
C. छहन  
D. प्रसून

Q4. निम्नलिखित का सही पर्यायवाची शब्द बताईये:

पताका

- A. झंडी  
B. सुधा  
C. दिवा  
D. लाल

Q5. दिल पसीजना, मुहावरे का सही अर्थ होगा:

- A. दया आना  
B. थक जाना  
C. शोक प्रकट करना  
D. दिल को लुभा लेना



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Morning Session**

Q6. कान खड़े होना, मुहावरे का सही अर्थ होगा

- A. दयनीय स्थिति होना  
B. निडर होना  
C. बहुत पछताना  
D. चौकन्ना होना

Q7. एकवचन का बहुवचन बताइये  
गली

- A. गलियाँ  
B. गलियों  
C. गलिओ  
D. गलिए

Q8. एकवचन का बहुवचन बताइये  
कलम

- A. कलमें  
B. कलमों  
C. कलमाएँ  
D. कलमी

Q9. एकवचन का बहुवचन बताइये  
छज्जा

- A. छज्जे  
B. छज्जाएँ  
C. छज्जों  
D. छज्जी

Q10. बहुवचन का एकवचन बताइये  
पुरुषों

- A. पुरुष  
B. पुरुषाओं  
C. पुरुषत्व  
D. पुरुषा



# Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

## **Morning Session**

Q11. What is the synonym of 'horrible'?

- A. Awful  
B. Agreeable  
C. Pleasant  
D. Worst

Q12. What is the synonym of 'camouflage'?

- A. Rush  
B. Hide  
C. Accelerate  
D. Bustle

Q13. What is the antonym of 'detest'?

- A. Reject  
B. deny  
C. adjacent  
D. admire

Q14. What is the antonym of 'rattle'?

- A. Abash  
B. Disconcert  
C. Discompose  
D. Antique

Q15. 'Something that is very common, not unique.' Find the idiom related to following meaning.

- A. A dime a dozen  
B. Bite the bullet  
C. Don't judge a book by its cover  
D. Biting off more than you can chew

Q16. 'The elephant in the room'. Find the meaning of this idiom in the given options.

- A. To fail in a spectacular manner  
B. An issue, person, or problem that someone is trying to avoid  
C. Joking with someone  
D. Reading or hearing something from the source

Q17. Select the grammatically correct option:

I was waiting at Rainbows since 4 o' clock.

- A. I have been waiting at Rainbows since 4 o' clock.  
B. I had been waiting at Rainbows since 4 o' clock.  
C. I will be waiting at Rainbows since 4 o' clock.  
D. I wait at Rainbows since 4 o' clock.



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q18. Choose the grammatically correct sentence.

- A. Reema or her friends run every day. B. Her friends or Reema run every day.  
C. Her friends or Reema are running every day D. Reema or her friends is running every day.

Q19. Fill in the blanks with the correct verb:

The book, in parts, \_\_\_\_\_ boring.

- A. Is B. are  
C. were D. Had

Q20. Fill in the blanks with the correct adjective:

Kashmir is \_\_\_\_\_ than Delhi.

- A. cold B. Colder  
C. coldest D. more cold

Q21. Who is known as 'the man who built Detroit'?

- A. Albert Kahn B. Pearl Harbour  
C. Alfred Marshall D. Adolf Hitler

Q21. किसे 'डेट्रोइट का निर्माण करने वाले व्यक्ति' के रूप में जाना जाता है?

- A. अल्बर्ट कन्हू B. पर्ल हार्बर  
C. अल्फ्रेड मार्शल D. एडॉल्फ हिटलर

Q22. In which century did the Europeans come to India?

- A. Seventeenth century B. Eighteenth century  
C. Nineteenth century D. Fifteenth century

Q22. यूरोपीय किस सदी में भारत आए थे?

- A. सत्रहवीं सदी B. अठारहवीं सदी  
C. उन्नीसवीं सदी D. पंद्रहवीं शताब्दी



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q23. As per the National Payments Corporation of India how many transactions were raised by the Unified Payments Interface in December 2019?

- A. 1.3 billion  
B. 1.8 billion  
C. 1.6 billion  
D. 1.7 billion

Q23. भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के अनुसार दिसंबर 2019 में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस द्वारा कितने लेनदेन किए गए थे?

- A. 1.3 अरब  
B. 1.8 अरब  
C. 1.6 अरब  
D. 1.7 अरब

Q24. Into how many parts is the state legislature in India divided?

- A. Four  
B. Three  
C. Five  
D. Two

Q24. भारत में राज्य की विधायिका को कितने भागों में विभाजित किया गया है?

- A. चार  
B. तीन  
C. पांच  
D. दो

Q25. How many members are there in the Rajya Sabha?

- A. 245 members  
B. 250 members  
C. 290 members  
D. 300 members

Q25. राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं?

- A. 245 सदस्य  
B. 250 सदस्य  
C. 290 सदस्य  
D. 300 सदस्य

Q26. Which of the following is not a Union Territory of India?

- A. Ladakh and Pondicherry  
B. Daman and Diu  
C. Lakshadweep  
D. Mizoram



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBN, UHBN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q26. निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है?

- A. लद्दाख और पांडिचेरी  
B. दमन और दीव  
C. लक्षद्वीप  
D. मिजोरम

Q27. Which of the following mines in Rajasthan is a producer of copper?

- A. Khetri  
B. Singbhum  
C. Balaghat  
D. Malanjkhand

Q27. निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी खदान तांबे की उत्पादक है?

- A. खेत्री  
B. सिंहभूम  
C. बालाघाट  
D. मलान्जखंड

Q28. Who amongst the following is the most celebrated environmental activist in contemporary India?

- A. Anna Hazare  
B. Medha Patkar  
C. Vasundhara Raje  
D. Arvind Kejriwal

Q28. निम्नलिखित में से कौन समकालीन भारत में सबसे प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता है?

- A. अन्ना हजारे  
B. मेधा पाटकर  
C. वसुंधरा राजे  
D. अरविंद केजरीवाल

Q29. Which one of the following is the correct meaning of 'Haryana'?

- A. The Abode of God  
B. The God of Green  
C. The God of Money  
D. The Abode of Grains

Q29. निम्नलिखित में से कौन सा एक 'हरियाणा' का सही अर्थ है?

- A. ईश्वर का निवास  
B. फसल का देवता  
C. धन का देवता  
D. अनाज का निवास



## Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

### **Morning Session**

Q30. Which one of these following villages of Haryana has the world's oldest ancient Indus Valley Civilization sites?

A. Rakhigarhi

B. Sisai Kali Rawan

C. Petwad

D. Bass

Q30. हरियाणा के निम्नलिखित गांवों में से किस गाँव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद हैं?

A. राखीगढ़ी

B. सिसई कली रावण

C. पेटवाढ

D. बास

Q31. On which day did the Indian government set up the Shah Commission to divide Punjab and create the state of Haryana?

A. 1<sup>st</sup> November 1966

B. 22<sup>nd</sup> April 1966

C. 7<sup>th</sup> November 1966

D. 23<sup>rd</sup> April 1966

Q31. भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी?

A. 1<sup>st</sup> नवंबर 1966

B. 22<sup>nd</sup> अप्रैल 1966

C. 7<sup>th</sup> नवंबर 1966

D. 23<sup>rd</sup> अप्रैल 1966

Q32. In which district of Haryana has the 'Km Scheme' on vehicles based on the Vehicle Tracking System been launched?

A. Gurugram

B. Mahendragarh

C. Nooh

D. Ambala

Q32. हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित 'किलोमीटर योजना' शुरू की गई है?

A. गुरुग्राम

B. महेंद्रगढ़

C. नू

D. अंबाला

Q33. Who is the first Indian woman to climb Mt Everest from Nepal and China?

A. Bachendri Pal

B. Anita Kundu

C. Kiran Bedi

D. Sania Nehwal



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

**Morning Session**

Q33. नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है?

- A. बछेंद्री पाल  
B. अनीता कुंडू  
C. किरण बेदी  
D. सानिया नेहवाल

Q34. As on 1<sup>st</sup> January, 2020, who has been appointed as the current Chief Justice of Punjab and Haryana Court?

- A. Ravi Shankar Jha  
B. Krishna Murari  
C. Tirath Singh Thakur  
D. Rajeev Sharma

Q34. 1 जनवरी, 2020 की स्थिति में, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?

- A. रविशंकर झा  
B. कृष्ण मुरारी  
C. तीरथ सिंह ठाकुर  
D. राजीव शर्मा

Q35. Which political leader of Haryana has been given the title of 'Youth Icon of the Year 2019'?

- A. Devendra Babli  
B. Dushyant Chautala  
C. Kuldeep Bishnoi  
D. Dipendra Hudda

Q35. हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को 2019 का 'यूथ आइकॉन' के खिताब से नवाजा गया है?

- A. देवेंद्र बबली  
B. दुष्यंत चौटाला  
C. कुलदीप बिश्नोई  
D. दीपेंद्र हुड्डा

Q36. Who has been elected as the Deputy Speaker of the 14<sup>th</sup> Haryana Assembly?

- A. Gyanendra Gupta  
B. Ranbir Gangwa  
C. Ramesh Koushik  
D. Rahul Choudhary

Q36. हरियाणा की 14 वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है?

- A. ज्ञानेंद्र गुप्ता  
B. रणबीर गंगवा  
C. रमेश कौशिक  
D. राहुल चौधरी





**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q37. Who among the following was the first to be decorated with the title of 'state poet' of Haryana?

- A. Deedar Singh  
B. Bagg Singh  
C. Ujjawal Singhand  
D. Uday Bhanu Hans

Q37. निम्नलिखित में से किसे हरियाणा के पहले 'राज्य कवि' के पद से सुशोभित होने का गौरव प्राप्त है?

- A. दीदार सिंह  
B. बग्ग सिंह  
C. उज्जवल सिंघांड  
D. उदय भानु हंस

Q38. Who wrote the novel 'Toota Hua Aadmi'?

- A. Mohan Chopra  
B. Deedar Singh  
C. K.C. Yadav  
D. Prem Chowdhary

Q38. 'टूटा हुआ आदमी' उपन्यास के रचयिता कौन है?

- A. मोहन चौपडा  
B. दीदार सिंह  
C. के. सी. यादव  
D. प्रेम चौधरी

Q39. In which of the following years was the Haryana Urdu Akademi established?

- A. 24<sup>th</sup> Nov, 1985  
B. 23<sup>rd</sup> Dec, 1995  
C. 26<sup>th</sup> Nov, 1987  
D. 22<sup>nd</sup> Dec, 1985

Q39. हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना निम्नलिखित में से किस सन में गई थी?

- A. 24<sup>th</sup> नवंबर, 1985  
B. 23<sup>rd</sup> दिसंबर, 1995  
C. 26<sup>th</sup> नवंबर, 1987  
D. 22<sup>nd</sup> दिसंबर, 1985

Q40. Which among these is considered the oldest language of Haryana?

- A. Khari-Boli  
B. Punjabi  
C. Haryanvi  
D. Hindi



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q40. इनमें से किस भाषा को हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा मानी जाती है?

- A. खड़ी-बोली  
B. पंजाबी  
C. हरियाणवी  
D. हिंदी

Q41. Which among these following ranges lies in North-East Haryana?

- A. Aravalli Range  
B. Sahyadri Range  
C. Shivalik Range  
D. Niladri Range

Q41. निम्नलिखित में से कौन पर्वत - श्रंखला हरियाणा केव उत्तर-पूर्व में स्थित है?

- A. अरावली श्रेणी  
B. सह्याद्री रेंज  
C. शिवालिक रेंज  
D. नीलाद्रि श्रेणी

Q42. Which among these following rivers flows in Northern Haryana?

- A. Dohan River  
B. Indori River  
C. Ghaggar Hakra River  
D. Krishnavati River

Q42. निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी हरियाणा में बहती है?

- A. दोहान नदी  
B. इंदौरी नदी  
C. घग्गर हकरा नदी  
D. कृष्णावती नदी

Q43. The average annual rainfall of Haryana is \_\_\_\_\_.

- A. 108.3mm  
B. 536.5mm  
C. 623.7mm  
D. 432.8mm

Q43. हरियाणा की औसत वार्षिक वर्षा \_\_\_\_\_ है।

- A. 108.3 मिलीमीटर  
B. 536.5 मिलीमीटर  
C. 623.7 मिलीमीटर  
D. 432.8 मिलीमीटर



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q44. How many revenue divisions are there in Haryana?

- A. 7 **B. 6**  
C. 5 D. 3

Q44. हरियाणा में कितने राजस्व मंडल हैं?

- A. 7 **B. 6**  
C. 5 D. 3

Q45. Which of the given rivers is a tributary of the Ghaggar River?

- A. Dangri **B. Kaushalya**  
C. Yamuna D. Saraswathi

Q45. दी गई नदियों में से कौन सी नदी घग्गर नदी की सहायक नदी है?

- A. डंगरी **B. कौशल्या**  
C. यमुना D. सरस्वती

Q46. What is the sex ratio of Haryana according to the Census of 2011?

- A. 879/1000** B. 964/1000  
C. 798/1000 D. 657/1000

Q46. 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है?

- A. 879/1000** B. 964/1000  
C. 798/1000 D. 657/1000

Q47. As of January 2020, who is the Chairperson of the Human Rights Commission of Haryana?

- A. Sunil Kumar Chaudhary B. Karam Chand Puri  
**C. Satish Kumar Mittal** D. Arun Singh Thakur



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBN, UHBN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q47. जनवरी 2020 की स्थिति में, हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?

- A. सुनील कुमार चौधरी  
B. करम चंद पुरी  
C. सतीश कुमार मित्तल  
D. अरुण सिंह ठाकुर

Q48. In which of the following years was The Haryana Co-operative Society Act passed?

- A. 1984  
B. 1982  
C. 1981  
D. 1987

Q48. निम्नलिखित में से किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया था?

- A. 1984  
B. 1982  
C. 1981  
D. 1987

Q49. Which among these is a dance forms of Haryana whose origin goes back to the days of the Mahabharata?

- A. Daph  
B. Ghoomar  
C. Chhathi  
D. Dhamaal

Q49. इनमें से कौन सा हरियाणा का एक नृत्य रूप है जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी?

- A. दाफ  
B. घूमर  
C. छठी  
D. धमाल

Q50. Which kind of art is very famous Haryana?

- A. Lehariya  
B. Gota  
C. Phulkari  
D. Kadhai

Q50. हरियाणा में किस प्रकार की कला बहुत प्रसिद्ध है?

- A. लहरिया  
B. मिला  
C. फुलकारी  
D. कढाई



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBN, UHBN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Morning Session**

Q51. When was the first time the Surajkund International Crafts Mela was held?

- A. 1957 B. 1967  
C. 1997 D. 1987

Q51. सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया था?

- A. 1957 B. 1967  
C. 1997 D. 1987

Q52. Fill the correct option.

The first digital computer and what most people think of as a computer was called the \_\_\_\_\_.

- A. COMPATE B. MECHANIC  
C. ENIAC D. DIGITAL CALCULATOR

Q52. सही विकल्प भरें।

पहला डिजिटल कंप्यूटर तथा जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में जानते हैं, उसे \_\_\_\_\_ कहा जाता था।

- A. COMPATE B. MECHANIC  
C. ENIAC D. DIGITAL CALCULATOR

Q53. What do we call a person who controls the computer?

- A. Live ware B. Programmer  
C. Analyst D. Controller

Q53. कंप्यूटर को नियंत्रित करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं?

- A. लाइव वेयर B. प्रोग्रामर  
C. विश्लेषक D. नियंत्रक



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Morning Session**

Q54. What is meant by 'operating system' in computers?  
Choose from the following options.

- A. Mouse  
B. Keyboard  
C. System software  
D. Hardware

Q54. कंप्यूटर में 'ऑपरेटिंग सिस्टम' का क्या मतलब है?  
निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें।

- A. माउस  
B. कीबोर्ड  
C. सिस्टम सॉफ्टवेयर  
D. हार्डवेयर

Q55. Choose Fill in the blank.

Early computers used \_\_\_\_\_ and were large (sometimes room size) and were only found in businesses, universities, or governments.

- A. transistors  
B. hard discs  
C. cardinal wires  
D. vacuum tubes

Q55. रिक्त स्थान की पूर्ति करें।

प्रारंभिक कंप्यूटर \_\_\_\_\_ का उपयोग करते थे जो की बहुत बड़ी (कभी-कभी कमरे के आकार) होती थी और केवल व्यवसायों, विश्वविद्यालयों या सरकारों के पास जाते थे।

- A. ट्रांजिस्टर  
B. हार्ड डिस्क  
C. कार्डिनल तार  
D. वैक्यूम ट्यूब

Q56. Choose the correct option that tells us for what purpose an input device is used.

- A. To view applications  
B. To process the system  
C. To transmit data  
D. To save information

Q56. सही विकल्प चुनिए जिससे यह पता चलता है की इनपुट डिवाइस का उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है।

- A. एप्लीकेशन्स को देखने के लिए  
B. सिस्टम को प्रोसेस करने के लिए  
C. डेटा संचारित करने के लिए  
D. जानकारी को सेव करने के लिए



**Haryana Staff Selection Commission**  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q57. Who sent the first electronic mail and in which year?

- A. Ray Tomlinson in 1971  
B. Charles Babbage in 1969  
C. Antonio Meucci in 1970  
D. Thomas Edison in 1972

Q57. पहला इलेक्ट्रॉनिक मेल किसने और कब भेजा था?

- A. 1971 में रे टॉमलिनसन  
B. 1969 में चार्ल्स बैबेज  
C. 1970 में एंटोनियो मेउची  
D. 1972 में थॉमस एडिसन

Q58. What type of software application is Microsoft Word?

- A. Word Processor  
B. Word Dictionary  
C. Word Document  
D. Word Format

Q58. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है?

- A. वर्ड प्रोसेसर  
B. वर्ड डिक्सनरी  
C. वर्ड डॉक्यूमेंट  
D. वर्ड फॉर्मेट

Q59. Microsoft Excel comes under the category of \_\_\_\_\_.

- A. Table sheets  
B. Calculation sheets  
C. Spreadsheets  
D. Word sheets

Q59. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल \_\_\_\_\_ की श्रेणी में आता है।

- A. टेबल शीट्स  
B. कैल्कुलेसन शीट्स  
C. स्प्रेडशीट्स  
D. वर्ड शीट्स

Q60. Which of the following is an odd one out?

- A. croissant  
B. lasagne  
C. tiramisu  
D. panna cotta



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q60. निम्नलिखित में से कौन सा एक विषम है?

- A. क्रोडसैन B. लाजानिया  
C. तिरामिसु D. पन्ना कोटा

Q61. masculine : AMCSLUNIE: : numbers : ?

- A. UNBMRES B. UEBSNM  
C. BERUSNM D. UBRESNM

Q61. masculine : AMCSLUNIE: : numbers : ?

- A. UNBMRES B. UEBSNM  
C. BERUSNM D. UBRESNM

Q62. In a row of people, the position of A from the left side is 11<sup>th</sup> and the position of B from the right side is 12<sup>th</sup>. C is sitting midway between B and A. Also, the position of C from the right of the row is 18<sup>th</sup>. Find the total no. of persons in the row.

- A. 36 B. 34  
C. 30 D. 33

Q62. लोगों की एक पंक्ति में, बाईं ओर से A की स्थिति 11 वीं है और दाईं ओर से B की स्थिति 12 वीं है। C, B और A के बीच में बैठा है। पंक्ति में दायें से C की स्थिति 18 वीं है। पंक्ति में व्यक्तियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये।

- A. 36 B. 34  
C. 30 D. 33

Q63. If Ram is standing at the right corner of a square table, facing towards the centre, and Shyam is standing diagonally opposite Ram, and Laxman is standing at the left corner of the table facing outwards and is diagonally opposite Mohan, who is standing on the right side of Ram?

- A. Laxman B. Mohan  
C. Shyam D. None





Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q63. यदि राम एक वर्गाकार मेज के दाहिने कोने पर केंद्र की ओर मुंह करके खड़ा है, और श्याम राम के विकर्णतः सम्मुख खड़ा है, और लक्ष्मण बाहर की ओर मुंह करके मोहन के विकर्णतः सम्मुख मेज के बाएं कोने पर खड़ा है, तो राम के दायें तरफ कौन खड़ा है?

- A. लक्ष्मण **B. मोहन**  
C. श्याम D. कोई नहीं

Q64. C is to the West of D which is to the South of E. If N is to the North of E, then N is to the \_\_\_\_\_ of C.

- A. East **B. North East**  
C. North West D. West

Q64. C, D के पश्चिम में है जो E के दक्षिण में है। यदि N, E के उत्तर में है, तो N, C के \_\_\_ की ओर है।

- A. पूर्व **B. उत्तर पूर्व**  
C. उत्तर पश्चिम D. पश्चिम

Q65. Kabita put her time piece on the table in such a way that at 9 p.m. the hour hand points to the South. In which direction will the minute hand point at 6:30 p.m.?

- A. East** B. West  
C. North D. South

Q65. कबिता ने अपनी घड़ी इस तरह रखी है कि रात के 9 बजे घंटे का काँटा दक्षिण दिशा में पॉइंट करता है। शाम 6:30 बजे मिनट का काँटा किस दिशा में पॉइंट करेगा ?

- A. पूर्व** B. पश्चिम  
C. उत्तर D. दक्षिण

Q66. A is married to C who is the son of E; C has a daughter named D; E has one grand-daughter, and D has only one brother B. How is B related to A?

- A. Husband B. Daughter  
C. Father **D. Son**



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Morning Session**

Q66. A की शादी C से हुई है जो E का पुत्र है; C की एक बेटी है जिसका नाम D है; E की एक पोती है, और D का केवल एक भाई B है। B का A से क्या संबंध है?

- A. पति  
B. बेटी  
C. पिता  
D. बेटा

Q67. N and M are sisters of O. M is the daughter of P and Q. P is the son of R. A is the mother-in-law of Q. B is daughter of R. What is the relationship of P to B?

- A. Sibling  
B. nephew  
C. niece  
D. daughter

Q67. N और M, O की बहन हैं। M, P और Q की बेटी है। P, R का पुत्र है। A, Q की सास है। B, R की बेटी है। P और B में क्या संबंध है?

- A. भाई  
B. भतीजा  
C. भांजी  
D. बेटी

Q68. LMAB, NOBB, PQCD, \_\_\_\_\_, TUEF, VWFF?

- A. RSDD  
B. RSEE  
C. SRHH  
D. PQFF

Q68. LMAB, NOBB, PQCD, \_\_\_\_\_, TUEF, VWFF?

- A. RSDD  
B. RSEE  
C. SRHH  
D. PQFF

Q69. If MATHS is coded as '24680', then ATM will be coded as '\_\_\_\_\_'.  
'

- A. 264  
B. 462  
C. 624  
D. 426

Q69. अगर MATHS को '24680' के रूप में कोड किया गया है, तो ATM को '\_\_\_\_\_'  
' के रूप में कोड किया जायेगा।

- A. 264  
B. 462  
C. 624  
D. 426



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q70. Arrange the following names in the **dictionary** order.

1)Joshua Fernandez 2)James Barrack 3)Jacqueline Blake 4) John Albert

A. 1, 3, 4, 2

**B. 3, 2, 4, 1**

C. 3, 1, 2, 4

D. 3, 2, 1, 4

Q70. निम्नलिखित नामों को शब्दकोश के क्रम में व्यवस्थित करें।

1)Joshua Fernandez 2)James Barrack 3)Jacqueline Blake 4) John Albert

A. 1, 3, 4, 2

**B. 3, 2, 4, 1**

C. 3, 1, 2, 4

D. 3, 2, 1, 4

Q71. How many of these following digits end with **even numbers**?

9, 11, 13, 15, 12, 17, 21, 36, 42, 47

A. 5

B. 2

**C. 3**

D. 4

Q71. निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं सैम संख्या के साथ समाप्त हो रही हैं?

9, 11, 13, 15, 12, 17, 21, 36, 42, 47

A. 5

B. 2

**C. 3**

D. 4

Q72. Arrange the dates in their correct chronological order referring to the months in winter.

1) 22<sup>nd</sup> October 1886, 2) 20<sup>th</sup> January 1887, 3) 23<sup>rd</sup> November 1886, 4) 24<sup>th</sup> December 1887

A. 1, 4, 2, 3

B. 3, 4, 1, 2

**C. 1, 3, 2, 4**

D. 3, 2, 1, 4

Q72. तारीखों को सर्दियों के महीनों के संदर्भ में उन्हें उनके सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें।

1) 22<sup>nd</sup> October 1886, 2) 20<sup>th</sup> January 1887, 3) 23<sup>rd</sup> November 1886, 4) 24<sup>th</sup> December 1887

A. 1, 4, 2, 3

B. 3, 4, 1, 2

**C. 1, 3, 2, 4**

D. 3, 2, 1, 4



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q73. How many of the following dates have **odd numbers of both dates and months** in them?  
1) 23<sup>rd</sup> July 1890 2) 25<sup>th</sup> October 1893 3) 26<sup>th</sup> September 1891 4) 27<sup>th</sup> January 1883

- A. 3 B. 1  
C. 2 D. 0

Q73. निम्नलिखित तारीखों में से कितनी तारीखें तथा उनके महीने दोनों में विषम संख्याएँ हैं?  
1) 23<sup>rd</sup> July 1890 2) 25<sup>th</sup> October 1893 3) 26<sup>th</sup> September 1891 4) 27<sup>th</sup> January 1883

- A. 3 B. 1  
C. 2 D. 0

Q74. Identify the correct pattern of writing an address from the options given.

- A. S.B. Road, Nilgiri Society, West Bengal, Plot no. 2, 411016, Kolkata  
B. Kolkata, Nilgiri Society, 411016, Plot no. 2, West Bengal, S.B. Road  
C. Plot No. 2, Nilgiri Society, S.B. Road, Kolkata, West Bengal, 411016  
D. Nilgiri Society, Kolkata, S. B. Road, Plot no. 2, West Bengal, 411016

Q74. दिए गए विकल्पों में से पता लिखने के सही पैटर्न की पहचान करें।

- A. एस.बी. रोड, नीलगिरी सोसायटी, पश्चिम बंगाल, प्लॉट नं - 2, 411016, कोलकाता  
B. कोलकाता, नीलगिरी सोसायटी, 411016, प्लॉट नं - 2, पश्चिम बंगाल, एस.बी. रोड  
C. प्लॉट नंबर - 2, नीलगिरि सोसायटी, एस.बी. रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, 411016  
D. नीलगिरि सोसायटी, कोलकाता, एस बी रोड, प्लॉट नं - 2, पश्चिम बंगाल, 411016

Q75. Simplify:  $(1/8+2/8)*(7/8 -6/8)$

- A. 3/64 B. 1/8  
C. 1/6 D. 2/8

Q75. सरल कीजिये:  $(1/8+2/8)*(7/8 -6/8)$

- A. 3/64 B. 1/8  
C. 1/6 D. 2/8



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
Morning Session**

Q76. What is the loss % when a scooter of value Rs 25,000 is sold at Rs 15,000?

- A. 50% **B. 40%**  
C. 20% D. 68%

Q76. जब 25,000 रु मूल्य का स्कूटर 15,000 रु में बेचा जाता है तो हानि का प्रतिशत क्या होगा?

- A. 50% **B. 40%**  
C. 20% D. 68%

Q77. Rahul purchased a jacket for Rs 500 while its original price was Rs 700. He also purchased a shirt for Rs 200, the cost price of which was Rs 400. Calculate the total profit Rahul made.

- A. 500 B. 300  
C. 200 **D. 400**

Q77. राहुल ने 500 रुपये में एक जैकेट खरीदी, जबकि इसका वास्तविक मूल्य 700 रुपये था। उसने 200 रुपये में एक शर्ट भी खरीदी, जिसका लागत मूल्य 400 रुपये था। राहुल द्वारा अर्जित कुल लाभ की गणना करें।

- A. 500 B. 300  
C. 200 **D. 400**

Q78. 4% of 75 is \_\_\_\_.

- A. 5 **B. 3**  
C. 25 D. 40

Q78. 75 का 4% \_\_\_\_ है।

- A. 5 **B. 3**  
C. 25 D. 40

Q79. There are 50 red cars and 20 blue cars in a toy store. If the total number of toys in the store is 80, calculate the percentage of blue cars.

- A. 25%** B. 20%  
C. 50% D. 40%



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Morning Session**

Q79. खिलौने की एक दुकान में 50 लाल कारों और 20 नीली कारों हैं। यदि स्टोर में खिलौनों की कुल संख्या 80 है, तो नीले कारों के प्रतिशत की गणना कीजिये।

- A. 25% B. 20%  
C. 50% D. 40%

Q80. What can be equivalent to 50:100?

- A. 5:2 B. 2:3  
C. 1:2 D. 4:5

Q80. 50:100 के बराबर क्या हो सकता है?

- A. 5:2 B. 2:3  
C. 1:2 D. 4:5

Q81. What is the ratio of water to milk if a milkman added 10 litres water to 30 litres milk?

- A. 4:2 B. 2:3  
C. 1:3 D. 5:6

Q81. यदि एक दूधवाले ने 30 लीटर दूध में 10 लीटर पानी डाला तो पानी का दूध में क्या अनुपात है?

- A. 4:2 B. 2:3  
C. 1:3 D. 5:6

Q82. The average of 23, 32, 65 and 56 is \_\_\_\_.

- A. 40 B. 25  
C. 44 D. 52

Q82. 23, 32, 65 और 56 का औसत \_\_\_\_ है।

- A. 40 B. 25  
C. 44 D. 52



# Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

## Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre), DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA Morning Session

Q83. 30 out of 60 students from Class 8 agreed to go on a trip. 50 out of 60 students from Class 9 also agreed to go on the trip. Calculate the average of students who agreed.

- A. 20  
C. 50
- B.  $2/3^{\text{rd}}$   
D.  $1/4^{\text{th}}$

Q83. कक्षा 8 के 60 में से 30 छात्र यात्रा पर जाने के लिए सहमत हुए। कक्षा 9 के 60 में से 50 छात्र भी यात्रा पर जाने के लिए सहमत हुए। सहमत हुए छात्रों के औसत की गणना करें।

- A. 20  
C. 50
- B.  $2/3^{\text{rd}}$   
D.  $1/4^{\text{th}}$

Q84. Calculate the time taken, in hours, by a bicycle travelling at 5km/h and covering a distance of 65 km.

- A. 11  
C. 13
- B. 25  
D. 5

Q84. 5km/h की गति से 65 km की दूरी तय करने में साइकिल द्वारा लिए गए समय की गणना घंटे में करें।

- A. 11  
C. 13
- B. 25  
D. 5

Q85. Which of the following statements determines that a chemical reaction has taken place?

- A. Change in state  
C. Change in temperature
- B. Change in colour  
D. All of the above

Q85. निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह निर्धारित करता है कि एक रासायनिक प्रतिक्रिया घटित हुई है?

- A. अवस्था में परिवर्तन  
C. तापमान में परिवर्तन
- B. रंग में परिवर्तन  
D. ऊपर के सभी

Q86. The decomposition of vegetable matter into compost is an example of an \_\_\_\_\_.

- A. exothermic reaction  
C. redox reaction
- B. endothermic reaction  
D. combination reaction



Haryana Staff Selection Commission  
Government of Haryana

Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA  
**Morning Session**

Q86. वनस्पति पदार्थ का उर्वरक के रूप में अपघटन एक \_\_\_\_\_ का उदाहरण है।

A. उष्माक्षेपी प्रतिक्रिया

B. ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया

C. रेडॉक्स प्रतिक्रिया

D. संयोजन प्रतिक्रिया

Q87. What are enzymes?

A. Bio catalysts

B. Tissues

C. Cells

D. None of the above

Q87. एंजाइम क्या हैं?

A. जैव उत्प्रेरक

B. ऊतक

C. कोशिकाएं

D. इनमे से कोई नहीं

Q88. Which pores of the plant open during photosynthesis when water flows into them?

A. xylem

B. stomatal

C. chloroplast

D. chlorophyll

Q88. प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे के कौन से छिद्र खुलते हैं जब उनमें पानी बहता है?

A. जाइलम

B. रंध

C. क्लोरोप्लास्ट

D. क्लोरोफिल

Q89. Far sightedness is also known as:

A. presbyopia

B. Myopia

C. Hypermetropia

D. None of the above

Q89. दूर द्रष्टि को के रूप में भी जाना जाता है:

A. जरादूरदृष्टि

B. निकट दृष्टि दोष

C. दीर्घदृष्टि

D. इनमे से कोई भी नहीं





## Haryana Staff Selection Commission

Government of Haryana

**Adv. No. 11/2019, Cat No. 16, Lower Division Clerk (Head Office Cadre),  
DHBVN, UHBVN & HVPNL DEPARTMENT, HARYANA**

### **Morning Session**

Q90. Which of the following gases is an excellent source of fuel and contains up to 75% of methane?

A. Biogas

B. Carbon dioxide

C. Hydrogen

D. Nitrogen

Q90. निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है और इसमें 75% तक मीथेन पायी जाती है?

A. बायोगैस

B. कार्बन डाइऑक्साइड

C. हाइड्रोजन

D. नाइट्रोजन